

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकटित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 544] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर १, 1967/अध्याय १०, 1889

No. 544] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 1967/AGFAHAYANA 10, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

F. E. R. A.

New Delhi, the 1st December 1967

S.O. 4199.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23E of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (7 of 1947) the Central Government hereby appoints Shri V. N. Bhatia, Secretary, Ministry of Law (Legislative Department) as Chairman of the Foreign Exchange Regulation Appellate Board, in place of Shri S. P. Sen-Varma.

[No. 4/67.]

R. C. MISRA, Dy. Secy.

(1771)

